



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 नवम्बर, 2020

अग्रहायण 5, 1942 शक सम्वत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

संख्या 4/822-2020-4-143(आजमगढ़)-2014

लखनऊ, 26 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-366

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149-94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायतीराज, उ० प्र०, को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायतीराज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायतीराज, उ० प्र०, लखनऊ, पंचायतीराज अनुभाग-3, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा0नि0आ0-2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा0नि0आ0-2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद आजमगढ़ की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/485-2015-4-143(आजमगढ़)-2014, दिनांक 9 मार्च, 2015 में विकास खण्ड जहानागंज, कोयलसा एवं अजमतगढ़ की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्वारा स्थापित करती हूँ।

## जनपद का नाम—आजमगढ़

## सारिणी

रूप पत्र-1							
क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
559	कोयलसा	भीलमपुर छपरा	भीलमपुर छपरा		कोयलसा	उ० प्र० शासन नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना सं० 2866/9-1-2019-11 टी० ए० / 19, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत बूढनपुर आजमगढ़ में समाहित कर दिया गया है।	
	कोयलसा		मिझुरी		कोयलसा	भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्व ग्राम मिझुरी को नजदीकी ग्राम पंचायत बड़ागाँव में सम्मिलित	
560	कोयलसा	केशवपुर	केशवपुर	1	कोयलसा	केशवपुर	केशवपुर
561	कोयलसा	धनघटा	धनघटा	2	कोयलसा	धनघटा	धनघटा
562	कोयलसा	बड़ागाँव	बड़ागाँव	3	कोयलसा	बड़ागाँव	बड़ागाँव
	कोयलसा		मुबारकपुर		कोयलसा		मुबारकपुर
					कोयलसा		मिझुरी
563	कोयलसा	शेरवा	शेरवा		कोयलसा	उ० प्र० शासन नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना सं० 2866/9-1-2019-11 टी० ए० / 19, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत बूढनपुर आजमगढ़ में समाहित कर दिया गया है।	
	कोयलसा		करनाईचक		कोयलसा	भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्व ग्राम करनाईचक को नजदीकी ग्राम पंचायत हूसेपुर सनूप में सम्मिलित	
564	कोयलसा	कबीरूद्दीनपुर	कबीरूद्दीनपुर	4	कोयलसा	कबीरूद्दीनपुर	कबीरूद्दीनपुर
	कोयलसा		शेखपूरा		कोयलसा		शेखपूरा
565	कोयलसा	डोमनपुर	डोमनपुर	5	कोयलसा	डोमनपुर	डोमनपुर
	कोयलसा		इसहाकपुर		कोयलसा		इसहाकपुर
	कोयलसा		इब्राहिमपुर		कोयलसा		इब्राहिमपुर
	कोयलसा		योगियाडीह		कोयलसा		योगियाडीह

1	2	3	4	1	2	3	4
566	कोयलसा	बूढनपुर	बूढनपुर,		कोयलसा	उ० प्र० शासन नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना सं० 2866/9-1-2019-11 टी० ए०/19, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत बूढनपुर आजमगढ़ में समाहित कर दिया गया है।	
567	कोयलसा	रायपुरखुरासिन	रायपुर खुरासिन		कोयलसा	उ० प्र० शासन नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना सं० 2866/9-1-2019-11 टी० ए०/19, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत बूढनपुर आजमगढ़ में समाहित कर दिया गया है।	
	कोयलसा		दरियापुर		कोयलसा	भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्व ग्राम दरियापुर को नजदीकी ग्राम पंचायत नोनावे में सम्मिलित	
568	कोयलसा	रानीपुर	रानीपुर		कोयलसा	उ० प्र० शासन नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना सं० 2866/9-1-2019-11 टी० ए०/19, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत बूढनपुर आजमगढ़ में समाहित कर दिया गया है।	
569	कोयलसा	ईश्वरपुर पवनी	ईश्वरपुर पवनी		कोयलसा	उ० प्र० शासन नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना सं० 2866/9-1-2019-11 टी० ए०/19, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत बूढनपुर आजमगढ़ में समाहित कर दिया गया है।	
	कोयलसा		किरतपुर		कोयलसा	भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्व ग्राम किरतपुर को नजदीकी ग्राम पंचायत एकडंगी सरवनपुर में सम्मिलित	
570	कोयलसा	भैरवपुर	भैरवपुर	6	कोयलसा	भैरवपुर	भैरवपुर
571	कोयलसा	कोयलसा	कोयलसा		कोयलसा	उ० प्र० शासन नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना सं० 2866/9-1-2019-11 टी० ए०/19, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत बूढनपुर आजमगढ़ में समाहित कर दिया गया है।	
	कोयलसा		रामनाथपुर		कोयलसा		

1	2	3	4	1	2	3	4
572	कोयलसा	एकडंगी सरवनपुर	एकडंगी	7	कोयलसा	एकडंगी सरवनपुर	एकडंगी
	कोयलसा		सरवनपुर		कोयलसा		सरवनपुर
	कोयलसा		जफरामऊ		कोयलसा		जफरामऊ
	कोयलसा				कोयलसा		किरतूपुर
573	कोयलसा	देऊरपुर	देऊरपुर	8	कोयलसा	देऊरपुर	देऊरपुर
	कोयलसा		मोलनाथपुर		कोयलसा		मोलनाथपुर
574	कोयलसा	ककरही	ककरही	9	कोयलसा	ककरही	ककरही
575	कोयलसा	सरैया	सरैया	10	कोयलसा	सरैया	सरैया
576	कोयलसा	बहेलियापार	बहेलियापार	11	कोयलसा	बहेलियापार	बहेलियापार
	कोयलसा		पण्डौली		कोयलसा		पण्डौली
	कोयलसा		मैनुद्दीनपुर		कोयलसा		मैनुद्दीनपुर
	कोयलसा		चकमैनुद्दीनपुर		कोयलसा		चकमैनुद्दीनपुर
	कोयलसा		अर्जुनपट्टी		कोयलसा		अर्जुनपट्टी
577	कोयलसा	मखनहॉ	मखनहॉ	12	कोयलसा	मखनहॉ	मखनहॉ
	कोयलसा		पूरापाण्डेय		कोयलसा		पूरापाण्डेय
	कोयलसा		पकड़ियापुर		कोयलसा		पकड़ियापुर
578	कोयलसा	अतरैठ	अतरैठ	13	कोयलसा	अतरैठ	अतरैठ
579	कोयलसा	नेबुआडीह	नेबुआडीह	14	कोयलसा	नेबुआडीह	नेबुआडीह
	कोयलसा		अटहरा		कोयलसा		अटहरा
580	कोयलसा	पटाधन	पटाधन	15	कोयलसा	पटाधन	पटाधन
	कोयलसा		दारूपुर		कोयलसा		दारूपुर
	कोयलसा		भूवापुर		कोयलसा		भूवापुर
581	कोयलसा	मादेपुर	मादेपुर	16	कोयलसा	मादेपुर	मादेपुर
582	कोयलसा	अमारी	अमारी	17	कोयलसा	अमारी	अमारी
	कोयलसा		रुकुमुद्दीनपुर		कोयलसा		रुकुमुद्दीनपुर
583	कोयलसा	इटौरी— खालिसपुर	इटौरीखालिसपुर	18	कोयलसा	इटौरी— खालिसपुर	इटौरीखालिसपुर
584	कोयलसा	कटोही	कटोही	19	कोयलसा	कटोही	कटोही
	कोयलसा		खदेरूपट्टी		कोयलसा		खदेरूपट्टी
585	कोयलसा	गौरा हरदो	गौरा हरदो	20	कोयलसा	गौरा हरदो	गौरा हरदो
	कोयलसा		खोन्हनपुर		कोयलसा		खोन्हनपुर
586	कोयलसा	लालापट्टी	लालापट्टी	21	कोयलसा	लालापट्टी	लालापट्टी
	कोयलसा		पुरखीपुर		कोयलसा		पुरखीपुर

1	2	3	4	1	2	3	4
587	कोयलसा	सिंहोरा	सिंहोरा	22	कोयलसा	सिंहोरा	सिंहोरा
	कोयलसा		पोखरपुर मु0 जयरामपुर		कोयलसा		पोखरपुर मु0 जयरामपुर
	कोयलसा		पोखरपुर मु0 सिंहोरा		कोयलसा		पोखरपुर मु0 सिंहोरा
588	कोयलसा	धनसिंहपुर	धनसिंहपुर	23	कोयलसा	धनसिंहपुर	धनसिंहपुर
	कोयलसा		जगदीशपुर		कोयलसा		जगदीशपुर
589	कोयलसा	सघनपट्टी	सघनपट्टी	24	कोयलसा	सघनपट्टी	सघनपट्टी
	कोयलसा		करनाईचक		कोयलसा		करनाईचक
590	कोयलसा	बेमूडीह किशुनदेवपट्टी	बेमूडीह किशुनदेवपट्टी	25	कोयलसा	बेमूडीह किशुनदेव- पट्टी	बेमूडीह किशुनदेवपट्टी
	कोयलसा		बेमूडीह गोसाई		कोयलसा		बेमूडीह गोसाई
	कोयलसा		चकहरैया		कोयलसा		चकहरैया
591	कोयलसा	मदियापार	मदियापार	26	कोयलसा	मदियापार	मदियापार
592	कोयलसा	भरौली टोडर	भरौली	27	कोयलसा	भरौली टोडर	भरौली
	कोयलसा		टोडरपुर		कोयलसा		टोडरपुर
593	कोयलसा	एकडंगी बिहारपुर	एकडंगी	28	कोयलसा	एकडंगी बिहारपुर	एकडंगी
	कोयलसा		बिहारपुर		कोयलसा		बिहारपुर
	कोयलसा		औराडांड		कोयलसा		औराडांड
594	कोयलसा	सिकहुला	पासीपुर	29	कोयलसा	सिकहुला	पासीपुर
	कोयलसा		सिकहुला		कोयलसा		सिकहुला
595	कोयलसा	नगवां	नगवां	30	कोयलसा	नगवां	नगवां
596	कोयलसा	जयरामपुर	जयरामपुर	31	कोयलसा	जयरामपुर	जयरामपुर
	कोयलसा		मैनुद्दीनपुर		कोयलसा		मैनुद्दीनपुर
597	कोयलसा	जलालपुर	जलालपुर	32	कोयलसा	जलालपुर	जलालपुर
	कोयलसा		नूरपुर		कोयलसा		नूरपुर
598	कोयलसा	रतनावे	रतनावे	33	कोयलसा	रतनावे	रतनावे
599	कोयलसा	चुमकुनी	चुमकुनी	34	कोयलसा	चुमकुनी	चुमकुनी
600	कोयलसा	हिसामुद्दीनपुर	हिसामुद्दीनपुर	35	कोयलसा	हिसामुद्दीन पुर	हिसामुद्दीनपुर
601	कोयलसा	पियरिया	पियरिया	36	कोयलसा	पियरिया	पियरिया
602	कोयलसा	भीमाकोल	भीमाकोल	37	कोयलसा	भीमाकोल	भीमाकोल
	कोयलसा		मड़छाराज		कोयलसा		मड़छाराज

1	2	3	4	1	2	3	4
603	कोयलसा	रामपुरदशराज- पट्टी	दशराजपट्टी	38	कोयलसा	रामपुर- दशराजपट्टी	दशराजपट्टी
	कोयलसा		मालेपट्टी		कोयलसा		मालेपट्टी
	कोयलसा		रामपुर मु0 भैरोदासपुर		कोयलसा		रामपुर मु0 भैरोदासपुर
604	कोयलसा	भैरोदासपुर	भैरोदासपुर	39	कोयलसा	भैरोदासपुर	भैरोदासपुर
605	कोयलसा	ऊसुरकुढ़वा	ऊसुरकुढ़वा	40	कोयलसा	ऊसुरकुढ़वा	ऊसुरकुढ़वा
606	कोयलसा	करमहॉडीगुरपुर	करमहॉडीगुरपुर	41	कोयलसा	करमहॉडीगुर पुर	करमहॉडीगुरपुर
607	कोयलसा	भरौली	भरौली	43	कोयलसा	भरौली	भरौली
608	कोयलसा	हूँसेपुर रामजियावन	हूँसेपुर रामजियावन	43	कोयलसा	हूँसेपुर रामजियावन	हूँसेपुर रामजियावन
609	कोयलसा	मझौवा	मझौवा	44	कोयलसा	मझौवा	मझौवा
610	कोयलसा	कोलहटा कमाल	कोलहटा कमाल	45	कोयलसा	कोलहटा कमाल	कोलहटा कमाल
	कोयलसा		कोलहटा चमरू		कोयलसा		कोलहटा चमरू
611	कोयलसा	तोनारी	तोनारी	46	कोयलसा	तोनारी	तोनारी
	कोयलसा		संसार		कोयलसा		संसार
612	कोयलसा	लहरपार	लहरपार	47	कोयलसा	लहरपार	लहरपार
613	कोयलसा	अरॉवगुलजार	अरॉवगुलजार	48	कोयलसा	अरॉवगुलजार	अरॉवगुलजार
	कोयलसा		रामपुर मु0 अरॉवगुलजार		कोयलसा		रामपुर मु0 अरॉवगुलजार
614	कोयलसा	मदनपट्टी	मदनपट्टी	49	कोयलसा	मदनपट्टी	मदनपट्टी
	कोयलसा		लखमीपुर		कोयलसा		लखमीपुर
615	कोयलसा	रसूलपुर उर्फ पासीपुर	रसूलपुर उर्फ पासीपुर	50	कोयलसा	रसूलपुर उर्फ पासीपुर	रसूलपुर उर्फ पासीपुर
616	कोयलसा	मुखलिसपुर	मुखलिसपुर	51	कोयलसा	मुखलिसपुर	मुखलिसपुर
617	कोयलसा	भवानीपट्टी	भवानीपट्टी	52	कोयलसा	भवानीपट्टी	भवानीपट्टी
618	कोयलसा	कुशहा गोसाई	कुशहा गोसाई	53	कोयलसा	कुशहा गोसाई	कुशहा गोसाई
	कोयलसा		दशवन्तपुर		कोयलसा		दशवन्तपुर
619	कोयलसा	मोलनापुर नत्थनपट्टी	मोलनापुर नत्थनपट्टी	54	कोयलसा	मोलनापुर नत्थनपट्टी	मोलनापुर नत्थनपट्टी
620	कोयलसा	गाजीपुर	गाजीपुर	55	कोयलसा	गाजीपुर	गाजीपुर
	कोयलसा		कठौरा		कोयलसा		कठौरा

1	2	3	4	1	2	3	4
	कोयलसा		बभनपूरा		कोयलसा		बभनपूरा
	कोयलसा		टण्डवा पटखौली		कोयलसा		टण्डवा पटखौली
621	कोयलसा	डींगुरपुर निजाम	डींगुरपुर	56	कोयलसा	डींगुरपुर निजाम	डींगुरपुर
	कोयलसा		सुजानपुर		कोयलसा		सुजानपुर
	कोयलसा		निजामपुर		कोयलसा		निजामपुर
	कोयलसा		किताहेठार		कोयलसा		किताहेठार
622	कोयलसा	वाजिदपुर	वाजिदपुर	57	कोयलसा	वाजिदपुर	वाजिदपुर
	कोयलसा		रायपुर दवन		कोयलसा		रायपुर दवन
623	कोयलसा	विष्टारा	विष्टारा	58	कोयलसा	विष्टारा	विष्टारा
	कोयलसा		अल्हनी		कोयलसा		अल्हनी
	कोयलसा		मुबारकपुर		कोयलसा		मुबारकपुर
	कोयलसा		मालेपट्टी		कोयलसा		मालेपट्टी
624	कोयलसा	टहरकिशुनदेव- पुर	टहरकिशुनदेव- पुर	59	कोयलसा	टहरकिशुन- देवपुर	टहरकिशुनदेवपुर
	कोयलसा		यादवपुर		कोयलसा		यादवपुर
625	कोयलसा	धनेज पाण्डेय	धनेज पाण्डेय	60	कोयलसा	धनेज पाण्डेय	धनेज पाण्डेय
	कोयलसा		धनेज दूबे		कोयलसा		धनेज दूबे
	कोयलसा		पॉती		कोयलसा		पॉती
626	कोयलसा	भैसासुर	भैसासुर	61	कोयलसा	भैसासुर	भैसासुर
	कोयलसा		चकरजई		कोयलसा		चकरजई
627	कोयलसा	भेदौरा मोलनापुर	भेदौरा	62	कोयलसा	भेदौरा मोलनापुर	भेदौरा
	कोयलसा		मोलनापुर		कोयलसा		मोलनापुर
628	कोयलसा	देवरिया	देवरिया	63	कोयलसा	देवरिया	देवरिया
	कोयलसा		दुबावे		कोयलसा		दुबावे
629	कोयलसा	मठगोबिन्द	मठगोबिन्द	64	कोयलसा	मठगोबिन्द	मठगोबिन्द
630	कोयलसा	जलालपुर जगनन्दनपट्टी	जलालपुर जगनन्दनपट्टी	65	कोयलसा	जलालपुर जगनन्दन- पट्टी	जलालपुर जगनन्दनपट्टी
631	कोयलसा	रायपुर काजी	रायपुर काजी	66	कोयलसा	रायपुर काजी	रायपुर काजी
	कोयलसा		मरगूबपुर		कोयलसा		मरगूबपुर

1	2	3	4	1	2	3	4
632	कोयलसा	कौड़िया	कौड़िया	67	कोयलसा	कौड़िया	कौड़िया
	कोयलसा		सुमेरपुर		कोयलसा		सुमेरपुर
633	कोयलसा	तमरुआ	तमरुआ	68	कोयलसा	तमरुआ	तमरुआ
634	कोयलसा	छीणीब्राह्मण	छीणीब्राह्मण	69	कोयलसा	छीणीब्राह्मण	छीणीब्राह्मण
635	कोयलसा	छीणीगोपाल	छीणीगोपाल	70	कोयलसा	छीणीगोपाल	छीणीगोपाल
636	कोयलसा	धन्धारी	धन्धारी	71	कोयलसा	धन्धारी	धन्धारी
637	कोयलसा	बॉसी जप्ती मॉफी	असरफपुर बसारतपट्टी	72	कोयलसा	बॉसी जप्ती मॉफी	असरफपुर बसारतपट्टी
	कोयलसा		बॉसी जप्ती मॉफी		कोयलसा		बॉसी जप्ती मॉफी
	कोयलसा		दौलतपुर		कोयलसा		दौलतपुर
638	कोयलसा	हूँसेपुर सनूप	हूँसेपुर सनूप	73	कोयलसा	हूँसेपुर सनूप	हूँसेपुर सनूप
	कोयलसा		लखनपुर		कोयलसा		लखनपुर
	कोयलसा				कोयलसा		करनाईचक
639	कोयलसा	पिपरी	पिपरी	74	कोयलसा	पिपरी	पिपरी
	कोयलसा		बबुआसांड		कोयलसा		बबुआसांड
640	कोयलसा	नोनावे	नोनावे	75	कोयलसा	नोनावे	नोनावे
	कोयलसा		डड़चा		कोयलसा		डड़चा
	कोयलसा				कोयलसा		दरियापुर
641	कोयलसा	बौढ़िया	बौढ़िया	76	कोयलसा	बौढ़िया	बौढ़िया
	कोयलसा		सुरजीपुर		कोयलसा		सुरजीपुर
642	कोयलसा	मड़छा हरिबल्लभ	मड़छा हरिबल्लभ	77	कोयलसा	मड़छा हरिबल्लभ	मड़छा हरिबल्लभ
643	कोयलसा	लालपुर	लालपुर	78	कोयलसा	लालपुर	लालपुर
	कोयलसा		गगऊर		कोयलसा		गगऊर
644	कोयलसा	भाऊपुर	भाऊपुर	79	कोयलसा	भाऊपुर	भाऊपुर
	कोयलसा		खानपुर		कोयलसा		खानपुर
	कोयलसा		सारंगपुर		कोयलसा		सारंगपुर
645	कोयलसा	बनकट जगदीश	बनकट जगदीश	80	कोयलसा	बनकट जगदीश	बनकट जगदीश
	कोयलसा		जलालपुर महाबलपट्टी		कोयलसा		जलालपुर महाबलपट्टी
	कोयलसा		समसपुर		कोयलसा		समसपुर
646	जहानागंज	गोधौरा	गोधौरा	81	जहानागंज	गोधौरा	गोधौरा
647	जहानागंज	अतरारी	अतरारी	82	जहानागंज	अतरारी	अतरारी



1	2	3	4	1	2	3	4
648	जहानागंज	कोइलारी	कोइलारी	83	जहानागंज	कोइलारी	कोइलारी
	जहानागंज		उम्मरपुर		जहानागंज		उम्मरपुर
649	जहानागंज	रामपुर	रामपुर		जहानागंज	उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना सं० 2795/9-1-2019-12 टी०ए०/19, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत जहानागंज बाजार (आजमगढ़) में समाहित कर दिया गया है।	
650	जहानागंज	चकसहदरिया	चकसहदरिया		जहानागंज	उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना सं० 2795/9-1-2019-12 टी०ए०/19, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत जहानागंज बाजार (आजमगढ़) में समाहित कर दिया गया है।	
651	जहानागंज	कुसरना	कुसरना	84	जहानागंज	कुसरना	कुसरना
652	जहानागंज	बसगित	बसगित	85	जहानागंज	बसगित	बसगित
	जहानागंज		बनकटा		जहानागंज		बनकटा
653	जहानागंज	आजमबांध	आजमबांध	86	जहानागंज	आजमबांध	आजमबांध
	जहानागंज		असपालपुर		जहानागंज		असपालपुर
	जहानागंज		बिरदईया खालसा		जहानागंज		बिरदईया खालसा
	जहानागंज		बिरदईया आइमा		जहानागंज		बिरदईया आइमा
654	जहानागंज	बोहना	बोहना	87	जहानागंज	बोहना	बोहना
	जहानागंज		मनउर		जहानागंज		मनउर
655	जहानागंज	सेमा	पाण्डरबोझ	88	जहानागंज	सेमा	पाण्डरबोझ
	जहानागंज		निजामपुर		जहानागंज		निजामपुर
	जहानागंज		महुंवासीन		जहानागंज		महुंवासीन
	जहानागंज		सेमा		जहानागंज		सेमा
	जहानागंज		गौरा		जहानागंज		गौरा
656	जहानागंज	सेमरौल	सेमरौल	89	जहानागंज	सेमरौल	सेमरौल
	जहानागंज		चाड़ी		जहानागंज		चाड़ी
	जहानागंज		मिर्जापुर		जहानागंज		मिर्जापुर
657	जहानागंज	परासी	परासी	90	जहानागंज	परासी	परासी
	जहानागंज		लक्ष्मीपुर		जहानागंज		लक्ष्मीपुर
	जहानागंज		जनकपुर		जहानागंज		जनकपुर

1	2	3	4	1	2	3	4
	जहानागंज		बाजार		जहानागंज		बाजार
	जहानागंज		सलारपुर		जहानागंज		सलारपुर
658	जहानागंज	मन्दे	मन्दे	91	जहानागंज	मन्दे	मन्दे
	जहानागंज		फिरोजपुर		जहानागंज		फिरोजपुर
	जहानागंज		जफरपुर माफी		जहानागंज		जफरपुर माफी
	जहानागंज		लोहरगांवा		जहानागंज		लोहरगांवा
	जहानागंज		बेलइसा		जहानागंज		बेलइसा
	जहानागंज		जमालपुर		जहानागंज		जमालपुर
659	जहानागंज	खानपुर	खानपुर	92	जहानागंज	खानपुर	खानपुर
	जहानागंज		अहिरौली		जहानागंज		अहिरौली
	जहानागंज		भीखमपुर		जहानागंज		भीखमपुर
660	जहानागंज	मसुआ	मसुआ	93	जहानागंज	मसुआ	मसुआ
	जहानागंज		अब्दोपुर		जहानागंज		अब्दोपुर
	जहानागंज		आहोपुर		जहानागंज		आहोपुर
	जहानागंज		यारीपुर		जहानागंज		यारीपुर
	जहानागंज		सलहाबाद		जहानागंज		सलहाबाद
	जहानागंज		विशुनपुर		जहानागंज		विशुनपुर
	जहानागंज		नखतढाड़		जहानागंज		नखतढाड़
661	जहानागंज	मित्तूपुर	मित्तूपुर	94	जहानागंज	मित्तूपुर	मित्तूपुर
662	जहानागंज	कोल्हूखोर	कोल्हूखोर	95	जहानागंज	कोल्हूखोर	कोल्हूखोर
	जहानागंज		बनवारी चक		जहानागंज		बनवारी चक
	जहानागंज		श्यामचक		जहानागंज		श्यामचक
	जहानागंज		कादीपुर		जहानागंज		कादीपुर
	जहानागंज		मुजफ्फरपुर		जहानागंज		मुजफ्फरपुर
	जहानागंज		सरीकतचक		जहानागंज		सरीकतचक
	जहानागंज		सुन्दरचक		जहानागंज		सुन्दरचक
663	जहानागंज	अमदही	अमदही	96	जहानागंज	अमदही	अमदही
	जहानागंज		भोजपुर		जहानागंज		भोजपुर
	जहानागंज		बेनपुर		जहानागंज		बेनपुर
	जहानागंज		लक्ष्मीपुर		जहानागंज		लक्ष्मीपुर
664	जहानागंज	सोनापुर	सोनापुर	97	जहानागंज	सोनापुर	सोनापुर
	जहानागंज		नजरचक		जहानागंज		नजरचक
	जहानागंज		सरीफचक		जहानागंज		सरीफचक

1	2	3	4	1	2	3	4
665	जहानागंज	बड़हलगंज	बड़हलगंज	98	जहानागंज	बड़हलगंज	बड़हलगंज
	जहानागंज		बरही		जहानागंज		बरही
666	जहानागंज	मोहिउद्दीनपुर	मोहिउद्दीनपुर	99	जहानागंज	मोहिउद्दीनपुर	मोहिउद्दीनपुर
	जहानागंज		मूदनचक		जहानागंज		मूदनचक
	जहानागंज		जमीनभीख		जहानागंज		जमीनभीख
667	जहानागंज	नेतपुर	नेतपुर	100	जहानागंज	नेतपुर	नेतपुर
	जहानागंज		मुबारकपुर उर्फ विनासेपुर		जहानागंज		मुबारकपुर उर्फ विनासेपुर
	जहानागंज		मकरौंदा खुर्द		जहानागंज		मकरौंदा खुर्द
668	जहानागंज	टिसौरा	टिसौरा	101	जहानागंज	टिसौरा	टिसौरा
	जहानागंज		मसरुदपुर		जहानागंज		मसरुदपुर
669	जहानागंज	बेलाकोल	बेलाकोल	102	जहानागंज	बेलाकोल	बेलाकोल
	जहानागंज		शेरपुर बुजुर्ग		जहानागंज		शेरपुर बुजुर्ग
	जहानागंज		शेरपुर खुर्द		जहानागंज		शेरपुर खुर्द
670	जहानागंज	मैनद्दीनपुर	मैनद्दीनपुर	103	जहानागंज	मैनद्दीनपुर	मैनद्दीनपुर
	जहानागंज		बधुआ चांचर		जहानागंज		बधुआ चांचर
	जहानागंज		दयालपुर बारीगांव		जहानागंज		दयालपुर बारीगांव
671	जहानागंज	धनहुंआ	धनहुंआ	104	जहानागंज	धनहुंआ	धनहुंआ
672	जहानागंज	बबुरा व्यवहारडीह	बबुरा व्यवहारडीह	105	जहानागंज	बबुरा व्यवहारडीह	बबुरा व्यवहारडीह
673	जहानागंज	मसीवीरमउआ	मसीवीरमउआ	106	जहानागंज	मसीवीरमउआ	मसीवीरमउआ
674	जहानागंज	भोपतपुर	भोपतपुर	107	जहानागंज	भोपतपुर	भोपतपुर
	जहानागंज		जफरपुर		जहानागंज		जफरपुर
	जहानागंज		सरायरन्ना		जहानागंज		सरायरन्ना
	जहानागंज		समसुद्दीनपुर		जहानागंज		समसुद्दीनपुर
	जहानागंज		क्वाइच		जहानागंज		क्वाइच
	जहानागंज		कटघर इस्माइल		जहानागंज		कटघर इस्माइल
	जहानागंज		उड़ियानपुर		जहानागंज		उड़ियानपुर
	जहानागंज		खेदूपुर		जहानागंज		खेदूपुर
675	जहानागंज	टेल्लुआ	टेल्लुआ	108	जहानागंज	टेल्लुआ	टेल्लुआ
676	जहानागंज	काजीपुर	काजीपुर	109	जहानागंज	काजीपुर	काजीपुर
	जहानागंज		मकरौंदा बुजुर्ग		जहानागंज		मकरौंदा बुजुर्ग
677	जहानागंज	दौलताबाद	दौलताबाद	110	जहानागंज	दौलताबाद	दौलताबाद

1	2	3	4	1	2	3	4
678	जहानागंज	अनेई	अनेई	111	जहानागंज	अनेई	अनेई
	जहानागंज		तरछा		जहानागंज		तरछा
	जहानागंज		कादीपुर		जहानागंज		कादीपुर
	जहानागंज		चकलूसी		जहानागंज		चकलूसी
679	जहानागंज	कारीसाथ	कारीसाथ	112	जहानागंज	कारीसाथ	कारीसाथ
	जहानागंज		नेतापुर		जहानागंज		नेतापुर
	जहानागंज		सेतापुर		जहानागंज		सेतापुर
	जहानागंज		चकनेतपुर		जहानागंज		चकनेतपुर
680	जहानागंज	जिगरसण्डी	जिगरसण्डी	113	जहानागंज	जिगरसण्डी	जिगरसण्डी
681	जहानागंज	धरवारा	धरवारा	114	जहानागंज	धरवारा	धरवारा
682	जहानागंज	धनारबांध	धनारबांध	115	जहानागंज	धनारबांध	धनारबांध
683	जहानागंज	पेवठा	पेवठा	116	जहानागंज	पेवठा	पेवठा
	जहानागंज		डिगुरपुर		जहानागंज		डिगुरपुर
	जहानागंज		बीरमपुर		जहानागंज		बीरमपुर
	जहानागंज		कौतुकपुर		जहानागंज		कौतुकपुर
684	जहानागंज	भटगांवा	भटगांवा	117	जहानागंज	भटगांवा	भटगांवा
	जहानागंज		भदया		जहानागंज		भदया
	जहानागंज		असलमचक		जहानागंज		असलमचक
685	जहानागंज	नवापुरा खालसा	नवापुरा खालसा	118	जहानागंज	नवापुरा खालसा	नवापुरा खालसा
	जहानागंज		कैथौली		जहानागंज		कैथौली
	जहानागंज		भरपुरवा		जहानागंज		भरपुरवा
	जहानागंज		नवापुरा माफी		जहानागंज		नवापुरा माफी
	जहानागंज		कौवाताल		जहानागंज		कौवाताल
686	जहानागंज	सुहवल	सुहवल	119	जहानागंज	सुहवल	सुहवल
687	जहानागंज	छतउर	छतउर	120	जहानागंज	छतउर	छतउर
	जहानागंज		शेरपुर		जहानागंज		शेरपुर
	जहानागंज		कड़ासर		जहानागंज		कड़ासर
	जहानागंज		नियामतपुर		जहानागंज		नियामतपुर
	जहानागंज		चकजुम्मन		जहानागंज		चकजुम्मन
688	जहानागंज	भागवत	भागवत	121	जहानागंज	भागवत	भागवत
	जहानागंज		मुरारपुर		जहानागंज		मुरारपुर
689	जहानागंज	मोलनापुर	मोलनापुर	122	जहानागंज	मोलनापुर	मोलनापुर

1	2	3	4	1	2	3	4
	जहानागंज		मीरपुर		जहानागंज		मीरपुर
	जहानागंज		देवसीपुर		जहानागंज		देवसीपुर
	जहानागंज		हांसापुर		जहानागंज		हांसापुर
	जहानागंज		मकदूमपुर		जहानागंज		मकदूमपुर
	जहानागंज		बहाउद्दीनुपट्टी		जहानागंज		बहाउद्दीनुपट्टी
	जहानागंज		खोजा पट्टी		जहानागंज		खोजा पट्टी
	जहानागंज		इमिलिया		जहानागंज		इमिलिया
	जहानागंज		दीनापुर		जहानागंज		दीनापुर
690	जहानागंज	सलेमपुर	सलेमपुर	123	जहानागंज	सलेमपुर	सलेमपुर
	जहानागंज		अफजलपुर मस्तान		जहानागंज		अफजलपुर मस्तान
691	जहानागंज	किशुनपुर	किशुनपुर	124	जहानागंज	किशुनपुर	किशुनपुर
	जहानागंज		निजामुद्दीनपुर		जहानागंज		निजामुद्दीनपुर
	जहानागंज		कटेहरी		जहानागंज		कटेहरी
	जहानागंज		लोकापुर		जहानागंज		लोकापुर
	जहानागंज		महमूदपुर		जहानागंज		महमूदपुर
	जहानागंज		रसूलपुर		जहानागंज		रसूलपुर
	जहानागंज		राय चकपानपुर		जहानागंज		राय चकपानपुर
	जहानागंज		खल्लोपुर		जहानागंज		खल्लोपुर
692	जहानागंज	ताड़ी	ताड़ी	125	जहानागंज	ताड़ी	ताड़ी
	जहानागंज		मोहबल्लीपुर		जहानागंज		मोहबल्लीपुर
	जहानागंज		चकनाहर		जहानागंज		चकनाहर
	जहानागंज		सेल्हूपुर		जहानागंज		सेल्हूपुर
	जहानागंज		सेल्हूबारी		जहानागंज		सेल्हूबारी
693	जहानागंज	बड़ौरा बुजुर्ग	बड़ौरा बुजुर्ग	126	जहानागंज	बड़ौरा बुजुर्ग	बड़ौरा बुजुर्ग
	जहानागंज		विशुनपुर		जहानागंज		विशुनपुर
694	जहानागंज	कुतुबपुर	कुतुबपुर	127	जहानागंज	कुतुबपुर	कुतुबपुर
695	जहानागंज	जलालपुर	जलालपुर	128	जहानागंज	जलालपुर	जलालपुर
696	जहानागंज	बड़ौरा खुर्द	बड़ौरा खुर्द	129	जहानागंज	बड़ौरा खुर्द	बड़ौरा खुर्द
697	जहानागंज	खुदवल	खुदवल	130	जहानागंज	खुदवल	खुदवल
698	जहानागंज	कलीजपुर	कलीजपुर	131	जहानागंज	कलीजपुर	कलीजपुर
	जहानागंज		नयनपुर		जहानागंज		नयनपुर
	जहानागंज		फैजपुर		जहानागंज		फैजपुर
	जहानागंज		दिलमनपुर		जहानागंज		दिलमनपुर

1	2	3	4	1	2	3	4
699	जहानागंज	नरेहथा	नरेहथा	132	जहानागंज	नरेहथा	नरेहथा
	जहानागंज		खुदादादपुर		जहानागंज		खुदादादपुर
700	जहानागंज	चक्रपानपुर	चक्रपानपुर	133	जहानागंज	चक्रपानपुर	चक्रपानपुर
	जहानागंज		एकौना		जहानागंज		एकौना
701	जहानागंज	पटहुंआ	पटहुंआ	134	जहानागंज	पटहुंआ	पटहुंआ
	जहानागंज		जाहिद चक		जहानागंज		जाहिद चक
702	जहानागंज	कनैला	कनैला	135	जहानागंज	कनैला	कनैला
703	जहानागंज	सेवटा	सेवटा	136	जहानागंज	सेवटा	सेवटा
	जहानागंज		महुई		जहानागंज		महुई
	जहानागंज		ममरखापुर		जहानागंज		ममरखापुर
	जहानागंज		सूरजपुर		जहानागंज		सूरजपुर
	जहानागंज		मीरपुर		जहानागंज		मीरपुर
704	जहानागंज	अकबेलपुर	अकबेलपुर	137	जहानागंज	अकबेलपुर	अकबेलपुर
705	जहानागंज	भुजही	भुजही	138	जहानागंज	भुजही	भुजही
	जहानागंज		महाबलपुर		जहानागंज		महाबलपुर
	जहानागंज		रामपुर		जहानागंज		रामपुर
	जहानागंज		अभिलाषन		जहानागंज		अभिलाषन
	जहानागंज		ज्योतिधारा		जहानागंज		ज्योतिधारा
706	जहानागंज	परसूपुर	परसूपुर	139	जहानागंज	परसूपुर	परसूपुर
	जहानागंज		जगदीशपुर		जहानागंज		जगदीशपुर
	जहानागंज		पारूपुर		जहानागंज		पारूपुर
	जहानागंज		अमठा गोपालपुर		जहानागंज		अमठा गोपालपुर
707	जहानागंज	हथौटा	हथौटा	140	जहानागंज	हथौटा	हथौटा
	जहानागंज		बरही		जहानागंज		बरही
	जहानागंज		नेवादा		जहानागंज		नेवादा
	जहानागंज		जोगापुर		जहानागंज		जोगापुर
708	जहानागंज	लपसीपुर	लपसीपुर	141	जहानागंज	लपसीपुर	लपसीपुर
	जहानागंज		तैयबपुर		जहानागंज		तैयबपुर
	जहानागंज		बसारिगपुर		जहानागंज		बसारिगपुर
709	जहानागंज	बीरभद्रपुर	वीरभद्रपुर	142	जहानागंज	बीरभद्रपुर	वीरभद्रपुर
	जहानागंज		अलाउद्दीनपुर		जहानागंज		अलाउद्दीनपुर
710	जहानागंज	टड़वा	टड़वा	143	जहानागंज	टड़वा	टड़वा

1	2	3	4	1	2	3	4
711	जहानागंज	धरमपुर	धरमपुर	144	जहानागंज	धरमपुर	धरमपुर
712	जहानागंज	बरहतिर जगदीशपुर	बरहतिर जगदीशपुर		जहानागंज	उ० प्र० शासन नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना सं० 2795/9-1-2019-12 टी०ए०/19, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत जहानागंज बाजार (आजमगढ़) में समाहित कर दिया गया है।	
713	जहानागंज	इदिलपुर	इदिलपुर	145	जहानागंज	इदिलपुर	इदिलपुर
	जहानागंज		खेमाजीत		जहानागंज		खेमाजीत
714	जहानागंज	करउत	करउत	146	जहानागंज	करउत	करउत
	जहानागंज		चौबेपुर		जहानागंज		चौबेपुर
	जहानागंज		भीखपुर		जहानागंज		भीखपुर
	जहानागंज		कुतुबपुर		जहानागंज		कुतुबपुर
	जहानागंज		भीखमपुर		जहानागंज		भीखमपुर
715	जहानागंज	पुनर्जी	पुनर्जी	147	जहानागंज	पुनर्जी	पुनर्जी
716	जहानागंज	कुन्जी	कुन्जी	148	जहानागंज	कुन्जी	कुन्जी
	जहानागंज		प्रतापपुर		जहानागंज		प्रतापपुर
717	जहानागंज	बजहा	बजहा	149	जहानागंज	बजहा	बजहा
718	जहानागंज	मुस्तफाबाद	मुस्तफाबाद		जहानागंज	उ० प्र० शासन नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना सं० 2795/9-1-2019-12 टी०ए०/19, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत जहानागंज बाजार (आजमगढ़) में समाहित कर दिया गया है।	
	जहानागंज		अब्दुलचक		जहानागंज		
	जहानागंज		चकिया		जहानागंज		
	जहानागंज		तुलसीपुर		जहानागंज		
719	जहानागंज	रोशनपुर	रोशनपुर	150	जहानागंज	रोशनपुर	रोशनपुर
	जहानागंज		अजीजाबाद		जहानागंज		अजीजाबाद
	जहानागंज		जयरामपुर		जहानागंज		जयरामपुर
	जहानागंज		लछिमनपुर		जहानागंज		लछिमनपुर
720	जहानागंज	शाहपुर	शाहपुर	151	जहानागंज	शाहपुर	शाहपुर
	जहानागंज		मिर्जापुर		जहानागंज		मिर्जापुर
	जहानागंज		गोड़सर		जहानागंज		गोड़सर
721	अजमतगढ़	सराय सागर मालटारी	सराय सागर मालटारी	152	अजमतगढ़	सराय सागर मालटारी	सराय सागर मालटारी
	अजमतगढ़		जटॉव		अजमतगढ़		जटॉव

1	2	3	4	1	2	3	4
722	अजमतगढ़	कठैचा	कठैचा	153	अजमतगढ़	कठैचा	कठैचा
	अजमतगढ़		डोरवा		अजमतगढ़		डोरवा
	अजमतगढ़		जमीन डोरवा		अजमतगढ़		जमीन डोरवा
723	अजमतगढ़	महुलिया	महुलिया	154	अजमतगढ़	महुलिया	महुलिया
	अजमतगढ़		बोझिया		अजमतगढ़		बोझिया
724	अजमतगढ़	पारीपट्टी	पारीपट्टी	154	अजमतगढ़	पारीपट्टी	पारीपट्टी
725	अजमतगढ़	राजू पट्टी	राजू पट्टी	156	अजमतगढ़	राजू पट्टी	राजू पट्टी
	अजमतगढ़		सिकदार पुर हसन		अजमतगढ़		सिकदार पुर हसन
	अजमतगढ़		बगवार		अजमतगढ़		बगवार
	अजमतगढ़		नदौरा तरकारी		अजमतगढ़		नदौरा तरकारी
726	अजमतगढ़	जमीन मुहम्मदपुर	जमीन मुहम्मदपुर	157	अजमतगढ़	जमीन मुहम्मदपुर	जमीन मुहम्मदपुर
	अजमतगढ़		अमलोनी		अजमतगढ़		अमलोनी
727	अजमतगढ़	मिरजापुर	मिरजापुर	157	अजमतगढ़	मिरजापुर	मिरजापुर
	अजमतगढ़		करनपुर सरैया		अजमतगढ़		करनपुर सरैया
	अजमतगढ़		गड़ेरीपट्टी		अजमतगढ़		गड़ेरीपट्टी
	अजमतगढ़		नदौरा तालुकामुहम्मदपुर		अजमतगढ़		नदौरा तालुकामुहम्मदपुर
	अजमतगढ़		मकरोपुर		अजमतगढ़		मकरोपुर
728	अजमतगढ़	जमीनछीड़ी	जमीनछीड़ी	159	अजमतगढ़	जमीनछीड़ी	जमीनछीड़ी
	अजमतगढ़		कल्यानपुर		अजमतगढ़		कल्यानपुर
	अजमतगढ़		जोतपुरुषोत्तमपुर		अजमतगढ़		जोतपुरुषोत्तमपुर
729	अजमतगढ़	कुदारन तिवारी	कुदारन तिवारी	160	अजमतगढ़	कुदारन तिवारी	कुदारन तिवारी
	अजमतगढ़		बरकोठा		अजमतगढ़		बरकोठा
	अजमतगढ़		पट्टी		अजमतगढ़		पट्टी
	अजमतगढ़		बाहापुर		अजमतगढ़		बाहापुर
	अजमतगढ़		नगहट		अजमतगढ़		नगहट
730	अजमतगढ़	भदौव	भदौव	161	अजमतगढ़	भदौव	भदौव
	अजमतगढ़		बटसरा		अजमतगढ़		बटसरा
	अजमतगढ़		मझौवा		अजमतगढ़		मझौवा
	अजमतगढ़		कुदारनबलराम		अजमतगढ़		कुदारनबलराम
731	अजमतगढ़	अन्जान शहीद	अन्जान शहीद	162	अजमतगढ़	अन्जान शहीद	अन्जान शहीद
	अजमतगढ़		गंगासागर		अजमतगढ़		गंगासागर



1	2	3	4	1	2	3	4
	अजमतगढ़		लगपुर		अजमतगढ़		लगपुर
732	अजमतगढ़	कोकिलपार	कोकिलपार	163	अजमतगढ़	कोकिलपार	कोकिलपार
	अजमतगढ़		भरौली		अजमतगढ़		भरौली
	अजमतगढ़		भटौली		अजमतगढ़		भटौली
733	अजमतगढ़	तुरकौली	तुरकौली	164	अजमतगढ़	तुरकौली	तुरकौली
	अजमतगढ़		कालिकापुर		अजमतगढ़		कालिकापुर
	अजमतगढ़		करसौली		अजमतगढ़		करसौली
734	अजमतगढ़	देवापार	देवापार	165	अजमतगढ़	देवापार	देवापार
	अजमतगढ़		चकशाहदानियाल		अजमतगढ़		चकशाहदानियाल
	अजमतगढ़		सोहरैया हाफिज		अजमतगढ़		सोहरैया हाफिज
	अजमतगढ़		सोहरैया वाजिद		अजमतगढ़		सोहरैया वाजिद
	अजमतगढ़		सुल्तानपुर		अजमतगढ़		सुल्तानपुर
	अजमतगढ़		पतार		अजमतगढ़		पतार
	अजमतगढ़		चकरज्जाक		अजमतगढ़		चकरज्जाक
	अजमतगढ़		बंगाली पट्टी		अजमतगढ़		बंगाली पट्टी
735	अजमतगढ़	सुन्दर सराय बल्लो	सुन्दर सराय बल्लो	166	अजमतगढ़	सुन्दर सराय बल्लो	सुन्दर सराय बल्लो
	अजमतगढ़		बक्सनपुर		अजमतगढ़		बक्सनपुर
736	अजमतगढ़	इमलीपुर	इमलीपुर	167	अजमतगढ़	इमलीपुर	इमलीपुर
737	अजमतगढ़	कस्बा सगड़ी	कस्बा सगड़ी	168	अजमतगढ़	कस्बा सगड़ी	कस्बा सगड़ी
	अजमतगढ़		जाजपुर बन्जरिया		अजमतगढ़		जाजपुर बन्जरिया
	अजमतगढ़		बागहुस्साम		अजमतगढ़		बागहुस्साम
	अजमतगढ़		बांकीपुर		अजमतगढ़		बांकीपुर
738	अजमतगढ़	खतीबपुर	खतीबपुर	169	अजमतगढ़	खतीबपुर	खतीबपुर
	अजमतगढ़		बागखालिस		अजमतगढ़		बागखालिस
	अजमतगढ़		बागइस्माल		अजमतगढ़		बागइस्माल
739	अजमतगढ़	धौरहरा	धौरहरा	170	अजमतगढ़	धौरहरा	धौरहरा
740	अजमतगढ़	नत्थूपुर	नत्थूपुर	171	अजमतगढ़	नत्थूपुर	नत्थूपुर
	अजमतगढ़		छत्तरपुर दलेल		अजमतगढ़		छत्तरपुर दलेल
741	अजमतगढ़	छत्तरपुर खुशहाल	छत्तरपुर खुशहाल	172	अजमतगढ़	छत्तरपुर खुशहाल	छत्तरपुर खुशहाल
	अजमतगढ़		ऐनपुर		अजमतगढ़		ऐनपुर
	अजमतगढ़		छत्तरपुर चकअजीज		अजमतगढ़		छत्तरपुर चकअजीज

1	2	3	4	1	2	3	4
	अजमतगढ़		छत्तरपुर मु0समुन्दपुर		अजमतगढ़		छत्तरपुर मु0समुन्दपुर
742	अजमतगढ़	दाउदपुर	दाउदपुर	173	अजमतगढ़	दाउदपुर	दाउदपुर
	अजमतगढ़		बागसुलेमान		अजमतगढ़		बागसुलेमान
743	अजमतगढ़	अल्लीपुर	अल्लीपुर	174	अजमतगढ़	अल्लीपुर	अल्लीपुर
	अजमतगढ़		मोलनापुर गोडारी		अजमतगढ़		मोलनापुर गोडारी
	अजमतगढ़		कुढ़वा गोडारी		अजमतगढ़		कुढ़वा गोडारी
	अजमतगढ़		चकआशिक		अजमतगढ़		चकआशिक
	अजमतगढ़		चकचूहड़ (गैर आबाद)		अजमतगढ़		चकचूहड़ (गैर आबाद)
744	अजमतगढ़	बासूपार बनकट	बासूपार बनकट	175	अजमतगढ़	बासूपार बनकट	बासूपार बनकट
	अजमतगढ़		टड़वा सर्फुद्दीनपट्टी		अजमतगढ़		टड़वा सर्फुद्दीनपट्टी
745	अजमतगढ़	समुन्दपुर	समुन्दपुर	176	अजमतगढ़	समुन्दपुर	समुन्दपुर
	अजमतगढ़		बागशाहओमन		अजमतगढ़		बागशाहओमन
	अजमतगढ़		डालपुर		अजमतगढ़		डालपुर
	अजमतगढ़		आलमपुर		अजमतगढ़		आलमपुर
	अजमतगढ़		खुशदीलपुर		अजमतगढ़		खुशदीलपुर
	अजमतगढ़		जमीन अल्लीपुर(गैर आबाद)		अजमतगढ़		जमीन अल्लीपुर(गैर आबाद)
746	अजमतगढ़	जोगियावीर	जोगियावीर	177	अजमतगढ़	जोगियावीर	जोगियावीर
	अजमतगढ़		मेहदीपट्टी		अजमतगढ़		मेहदीपट्टी
	अजमतगढ़		सन्दूकीपट्टी		अजमतगढ़		सन्दूकीपट्टी
	अजमतगढ़		मीना लोहारपट्टी		अजमतगढ़		मीना लोहारपट्टी
	अजमतगढ़		टीमलपट्टी		अजमतगढ़		टीमलपट्टी
	अजमतगढ़		बक्सपट्टी		अजमतगढ़		बक्सपट्टी
747	अजमतगढ़	चकअजीज	रौजासैफनपट्टी	178	अजमतगढ़	चकअजीज	रौजासैफनपट्टी
	अजमतगढ़		चकअजीज		अजमतगढ़		चकअजीज
	अजमतगढ़		रामपुर जलालुद्दीनपट्टी		अजमतगढ़		रामपुर जलालुद्दीनपट्टी
	अजमतगढ़		मिठीपट्टी		अजमतगढ़		मिठीपट्टी
	अजमतगढ़		हसनपट्टी (गैर आबाद)		अजमतगढ़		हसनपट्टी (गैर आबाद)

1	2	3	4	1	2	3	4
	अजमतगढ़		टडवा बददोपुर (गैर आबाद)		अजमतगढ़		टडवा बददोपुर (गैर आबाद)
	अजमतगढ़		दहीरपट्टी (गैर आबाद)		अजमतगढ़		दहीरपट्टी (गैर आबाद)
	अजमतगढ़		फत्तेपुर (गैर आबाद)		अजमतगढ़		फत्तेपुर (गैर आबाद)
748	अजमतगढ़	चुनुगपार	चुनुगपार	179	अजमतगढ़	चुनुगपार	चुनुगपार
	अजमतगढ़		मेहनाजपुर		अजमतगढ़		मेहनाजपुर
	अजमतगढ़		गैवीपुर		अजमतगढ़		गैवीपुर
	अजमतगढ़				अजमतगढ़		सुखपुर
	अजमतगढ़		खानकाहबहरामपुर (गैर आबाद)		अजमतगढ़		खानकाहबहरामपुर (गैर आबाद)
749	अजमतगढ़	चौदपार	चौदपार	180	अजमतगढ़	चौदपार	चौदपार
750	अजमतगढ़	खालिसपुर	खालिसपुर	181	अजमतगढ़	खालिसपुर	खालिसपुर
751	अजमतगढ़	कसड़ा आइमा	कसड़ा आइमा	182	अजमतगढ़	कसड़ा आइमा	कसड़ा आइमा
	अजमतगढ़		भोपतपुर		अजमतगढ़		भोपतपुर
	अजमतगढ़		गोड़इतपट्टी		अजमतगढ़		गोड़इतपट्टी
	अजमतगढ़		मुस्लिमपुर		अजमतगढ़		मुस्लिमपुर
	अजमतगढ़		सैदपुर		अजमतगढ़		सैदपुर
	अजमतगढ़		कसड़ा खालसा		अजमतगढ़		कसड़ा खालसा
	अजमतगढ़		मैनाथपट्टी		अजमतगढ़		मैनाथपट्टी
	अजमतगढ़		वाजिद पट्टी		अजमतगढ़		वाजिद पट्टी
752	अजमतगढ़	जमीनहरखोरी	जमीनहरखोरी	183	अजमतगढ़	जमीनहरखोरी	जमीनहरखोरी
753	अजमतगढ़	पूनापार	पूनापार	184	अजमतगढ़	पूनापार	पूनापार
	अजमतगढ़		ज्ञानपुर		अजमतगढ़		ज्ञानपुर
	अजमतगढ़		पतौना		अजमतगढ़		पतौना
	अजमतगढ़		श्रामपुर (गैर आबाद)		अजमतगढ़		श्रामपुर (गैर आबाद)
	अजमतगढ़		चकघनश्याम (गैर आबाद)		अजमतगढ़		चकघनश्याम (गैर आबाद)
	अजमतगढ़		दूबी		अजमतगढ़		दूबी
754	अजमतगढ़	हरखोरी	हरखोरी	185	अजमतगढ़	हरखोरी	हरखोरी
755	अजमतगढ़	पुरुषोत्तमपुर उर्फ कैथौली	पुरुषोत्तमपुर उर्फ कैथौली	186	अजमतगढ़	पुरुषोत्तमपुर उर्फ कैथौली	पुरुषोत्तमपुर उर्फ कैथौली
	अजमतगढ़		सिन्दूरपार		अजमतगढ़		सिन्दूरपार

1	2	3	4	1	2	3	4
	अजमतगढ़		चिन्हारी (गैर आबाद)		अजमतगढ़		चिन्हारी (गैर आबाद)
	अजमतगढ़		चम्पागोपालपुर (गैर आबाद)		अजमतगढ़		चम्पागोपालपुर (गैर आबाद)
	अजमतगढ़		खरगपुर (गैर आबाद)		अजमतगढ़		खरगपुर (गैर आबाद)
756	अजमतगढ़	कादीपुर	कादीपुर	187	अजमतगढ़	कादीपुर	कादीपुर
757	अजमतगढ़	अहिरौली	अहिरौली	188	अजमतगढ़	अहिरौली	अहिरौली
	अजमतगढ़		रघुनन्दनपुर		अजमतगढ़		रघुनन्दनपुर
	अजमतगढ़		जोतपहाड़पुर		अजमतगढ़		जोतपहाड़पुर
	अजमतगढ़				अजमतगढ़		कान्दूपट्टी (गैर आबाद)
	अजमतगढ़				अजमतगढ़		चकमाधोपुर (गैर आबाद)
758	अजमतगढ़	मसोना	मसोना		अजमतगढ़	उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना सं० 2328 / 9-1-2019-27टी० ए० / 2015, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत अजमतगढ़ की सीमा का विस्तार किया गया है।	
	अजमतगढ़		मानिकपुर		अजमतगढ़	भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्व ग्राम मानिकपुर को नजदीकी ग्राम पंचायत जहीरूददीनपुर में सम्मिलित	
	अजमतगढ़		सुखपुर		अजमतगढ़	भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्व ग्राम सुखपुर को नजदीकी ग्राम पंचायत चुनुगपार में सम्मिलित	
	अजमतगढ़		कान्दूपट्टी(गैर आबाद)		अजमतगढ़	भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्व ग्राम कान्दूपट्टी को नजदीकी ग्राम पंचायत अहिरौली में सम्मिलित	
	अजमतगढ़		ढेलुवाबसन्तपुर(गैर आबाद)		अजमतगढ़	भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्व ग्राम ढेलुवाबसन्तपुर (गैरआबाद) को नजदीकी ग्राम पंचायत मेघईखास में सम्मिलित	
	अजमतगढ़		चकमाधोपुर(गैर आबाद)		अजमतगढ़	भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्व ग्राम चकमाधोपुर(गैरआबाद) को नजदीकी ग्राम पंचायत अहिरौली में सम्मिलित	

1	2	3	4	1	2	3	4
759	अजमतगढ़	मेघईखास	मेघईखास	189	अजमतगढ़	मेघईखास	मेघईखास
	अजमतगढ़				अजमतगढ़		ढेलुवाबसन्तपुर(गैर आबाद)
	अजमतगढ़				अजमतगढ़		ढेलुवा मेघई (गैर आबाद)
760	अजमतगढ़	जमीन मेघई	जमीन मेघई		अजमतगढ़	उ० प्र० शासन नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना सं० 2328/9-1-2019-27टी० ए०/2015, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत अजमतगढ़ की सीमा का विस्तार किया गया है।	
	अजमतगढ़		ढेलुवा मेघई (गैर आबाद)		अजमतगढ़	भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्व ग्राम ढेलुवा मेघई (गैर आबाद) को नजदीकी ग्राम पंचायत मेघईखास में सम्मिलित	
761	अजमतगढ़	कटाई- अलीमुद्दीनपुर	कटाई- अलीमुद्दीनपुर	190	अजमतगढ़	कटाई- अलीमुद्दीनपुर	कटाईअलीमुद्दीनपुर
762	अजमतगढ़	जहीरुद्दीनपुर	जहीरुद्दीनपुर	191	अजमतगढ़	जहीरुद्दीनपुर	जहीरुद्दीनपुर
	अजमतगढ़		तेजपालपुर धुसवा		अजमतगढ़		तेजपालपुर धुसवा
	अजमतगढ़				अजमतगढ़		मानिकपुर
763	अजमतगढ़	ओलमापुर	ओलमापुर	192	अजमतगढ़	ओलमापुर	ओलमापुर
764	अजमतगढ़	हरसिंहपुर	हरसिंहपुर	193	अजमतगढ़	हरसिंहपुर	हरसिंहपुर
	अजमतगढ़		घरसड़ा		अजमतगढ़		घरसड़ा
765	अजमतगढ़	संवरूपुर	संवरूपुर	194	अजमतगढ़	संवरूपुर	संवरूपुर
	अजमतगढ़		रसीदाबाद		अजमतगढ़		रसीदाबाद
766	अजमतगढ़	चंगईपुर	चंगईपुर	195	अजमतगढ़	चंगईपुर	चंगईपुर
	अजमतगढ़		कोठिया(गैर आबाद)		अजमतगढ़		कोठिया(गैर आबाद)
767	अजमतगढ़	ढोलीपुर	ढोलीपुर	196	अजमतगढ़	ढोलीपुर	ढोलीपुर
768	अजमतगढ़	शाहपुर नेवादा	शाहपुर नेवादा	197	अजमतगढ़	शाहपुर नेवादा	शाहपुर नेवादा
	अजमतगढ़		बाहापुर(गैर आबाद)		अजमतगढ़		बाहापुर(गैर आबाद)
769	अजमतगढ़	बेरमा	बेरमा	198	अजमतगढ़	बेरमा	बेरमा
770	अजमतगढ़	अमुवारी नरायनपुर	अमुवारी नरायनपुर	199	अजमतगढ़	अमुवारी नरायनपुर	अमुवारी नरायनपुर
	अजमतगढ़		फैजुल्लाह कानूनगो		अजमतगढ़		फैजुल्लाह कानूनगो
	अजमतगढ़		रुस्तमपुर		अजमतगढ़		रुस्तमपुर

1	2	3	4	1	2	3	4
771	अजमतगढ़	महावतगढ़	महावतगढ़	200	अजमतगढ़	महावतगढ़	महावतगढ़
	अजमतगढ़		उमरीशेखपुर		अजमतगढ़		उमरीशेखपुर
772	अजमतगढ़	टेकनगाढ़ा	टेकनगाढ़ा	201	अजमतगढ़	टेकनगाढ़ा	टेकनगाढ़ा
	अजमतगढ़		अहिरौली		अजमतगढ़		अहिरौली
773	अजमतगढ़	रामपुर	रामपुर	202	अजमतगढ़	रामपुर	रामपुर
774	अजमतगढ़	भुवनाबुजुर्ग	भुवनाबुजुर्ग	203	अजमतगढ़	भुवनाबुजुर्ग	भुवनाबुजुर्ग
	अजमतगढ़		चकभुवना		अजमतगढ़		चकभुवना
775	अजमतगढ़	विशुनपुर	विशुनपुर	204	अजमतगढ़	विशुनपुर	विशुनपुर
	अजमतगढ़		पनशब्दा		अजमतगढ़		पनशब्दा
776	अजमतगढ़	सिकरौरा	सिकरौरा	205	अजमतगढ़	सिकरौरा	सिकरौरा
	अजमतगढ़		जमीन सिकरौरा		अजमतगढ़		जमीन सिकरौरा
	अजमतगढ़		फैजुल्लाह जहिरुल्लाह		अजमतगढ़		फैजुल्लाह जहिरुल्लाह
	अजमतगढ़		प्रयागपुर		अजमतगढ़		प्रयागपुर
	अजमतगढ़		हरनई		अजमतगढ़		हरनई
777	अजमतगढ़	भुवनाखुर्द	भुवनाखुर्द	206	अजमतगढ़	भुवनाखुर्द	भुवनाखुर्द
	अजमतगढ़		बागपुर		अजमतगढ़		बागपुर
	अजमतगढ़		दिलशादपुर		अजमतगढ़		दिलशादपुर
778	अजमतगढ़	अलियाबाद कटाई	अलियाबाद कटाई	207	अजमतगढ़	अलियाबाद कटाई	अलियाबाद कटाई
779	अजमतगढ़	शेखमौली करतारपुर	शेखमौली करतारपुर	208	अजमतगढ़	शेखमौली करतारपुर	शेखमौली करतारपुर
	अजमतगढ़		महरूपुर		अजमतगढ़		महरूपुर
	अजमतगढ़		गोर्पईपुर		अजमतगढ़		गोर्पईपुर
780	अजमतगढ़	अजगरा	अजगरा	209	अजमतगढ़	अजगरा	अजगरा
	अजमतगढ़		जमालुद्दीनपट्टी		अजमतगढ़		जमालुद्दीनपट्टी
	अजमतगढ़		कोठा		अजमतगढ़		कोठा
781	अजमतगढ़	बनौरा मैनाथ पट्टी	बनौरा मैनाथ पट्टी	210	अजमतगढ़	बनौरा मैनाथ पट्टी	बनौरा मैनाथ पट्टी
	अजमतगढ़		आरिफपुर		अजमतगढ़		आरिफपुर
	अजमतगढ़		जमीनशेखपुर		अजमतगढ़		जमीनशेखपुर
	अजमतगढ़		मण्डनपुर		अजमतगढ़		मण्डनपुर
	अजमतगढ़		गन्धूपुर		अजमतगढ़		गन्धूपुर

1	2	3	4	1	2	3	4
782	अजमतगढ़	सोकहना खालसा	सोकहना खालसा	211	अजमतगढ़	सोकहना खालसा	सोकहना खालसा
	अजमतगढ़		सोकहना आइमा		अजमतगढ़		सोकहना आइमा
	अजमतगढ़		मुरारपुर		अजमतगढ़		मुरारपुर
	अजमतगढ़		मुसलमानपुर		अजमतगढ़		मुसलमानपुर
783	अजमतगढ़	छपरा सुल्तानपुर	छपरा सुल्तानपुर	212	अजमतगढ़	छपरा सुल्तानपुर	छपरा सुल्तानपुर
784	अजमतगढ़	इमिलिया	इमिलिया	213	अजमतगढ़	इमिलिया	इमिलिया
	अजमतगढ़		खर्रा रास्तीपुर		अजमतगढ़		खर्रा रास्तीपुर
	अजमतगढ़		चकजीयन		अजमतगढ़		चकजीयन
785	अजमतगढ़	हरई इस्माइलपुर	हरई इस्माइलपुर	214	अजमतगढ़	हरई इस्माइलपुर	हरई इस्माइलपुर
786	अजमतगढ़	साल्हेपुर	साल्हेपुर	215	अजमतगढ़	साल्हेपुर	साल्हेपुर
	अजमतगढ़		उमरोहा		अजमतगढ़		उमरोहा
787	अजमतगढ़	भटौली इब्राहीमपुर	भटौली इब्राहीमपुर	216	अजमतगढ़	भटौली इब्राहीमपुर	भटौली इब्राहीमपुर
	अजमतगढ़		पिलखी		अजमतगढ़		पिलखी
788	अजमतगढ़	कंजरा दिलशादपुर	कंजरा दिलशादपुर	217	अजमतगढ़	कंजरा दिलशादपुर	कंजरा दिलशादपुर
	अजमतगढ़		कुरहंस		अजमतगढ़		कुरहंस
	अजमतगढ़		लीलापट्टी		अजमतगढ़		लीलापट्टी
	अजमतगढ़		नेता पट्टी		अजमतगढ़		नेता पट्टी
	अजमतगढ़		दादवकपुर		अजमतगढ़		दादवकपुर
789	अजमतगढ़	रसूलपुर	रसूलपुर	218	अजमतगढ़	रसूलपुर	रसूलपुर
	अजमतगढ़		कठरा जमीन कठरा		अजमतगढ़		कठरा जमीन कठरा
	अजमतगढ़		जमीन बेलारी		अजमतगढ़		जमीन बेलारी
	अजमतगढ़		चकबेगूदास		अजमतगढ़		चकबेगूदास
790	अजमतगढ़	देऊपुर कमालपुर	देऊपुर कमालपुर	219	अजमतगढ़	देऊपुर कमालपुर	देऊपुर कमालपुर
	अजमतगढ़		ऑखीपुर		अजमतगढ़		ऑखीपुर
791	अजमतगढ़	फरीदपुर	फरीदपुर	220	अजमतगढ़	फरीदपुर	फरीदपुर
	अजमतगढ़		सेवथरी		अजमतगढ़		सेवथरी
	अजमतगढ़		नत्थनपुर		अजमतगढ़		नत्थनपुर
	अजमतगढ़		एकवनडाड़		अजमतगढ़		एकवनडाड़

1	2	3	4	1	2	3	4
792	अजमतगढ़	सुखमदत्तनगर	सुखमदत्तनगर	221	अजमतगढ़	सुखमदत्तनगर	सुखमदत्तनगर
	अजमतगढ़		अठनारू		अजमतगढ़		अठनारू
	अजमतगढ़		सिकन्दरपुर		अजमतगढ़		सिकन्दरपुर
793	अजमतगढ़	तिवारी पट्टी	तिवारी पट्टी	222	अजमतगढ़	तिवारी पट्टी	तिवारी पट्टी
	अजमतगढ़		कपारगढ़		अजमतगढ़		कपारगढ़
	अजमतगढ़		जमीनकपारगढ़		अजमतगढ़		जमीनकपारगढ़
794	अजमतगढ़	नरहनखास	नरहनखास	223	अजमतगढ़	नरहनखास	नरहनखास
	अजमतगढ़		जमीन नरहन		अजमतगढ़		जमीन नरहन
795	अजमतगढ़	बेलसर जमीन बेलसर	बेलसर जमीन बेलसर	224	अजमतगढ़	बेलसर जमीन बेलसर	बेलसर जमीन बेलसर
	अजमतगढ़		चौंयेपुर		अजमतगढ़		चौंयेपुर
	अजमतगढ़		मिट्ठापुर		अजमतगढ़		मिट्ठापुर
796	अजमतगढ़	भरौली	भरौली	225	अजमतगढ़	भरौली	भरौली
797	अजमतगढ़	इसरहा	इसरहा	226	अजमतगढ़	इसरहा	इसरहा
798	अजमतगढ़	अतरकच्छा	अतरकच्छा	227	अजमतगढ़	अतरकच्छा	अतरकच्छा
	अजमतगढ़		बरडीहा		अजमतगढ़		बरडीहा
	अजमतगढ़		तालसलोना		अजमतगढ़		तालसलोना
799	अजमतगढ़	डिघवनिया मझौवा	डिघवनिया मझौवा	228	अजमतगढ़	डिघवनिया मझौवा	डिघवनिया मझौवा
800	अजमतगढ़	पारनकुण्डा	पारनकुण्डा	229	अजमतगढ़	पारनकुण्डा	पारनकुण्डा
801	अजमतगढ़	बरमहौली बेनी	बरमहौली बेनी	230	अजमतगढ़	बरमहौली बेनी	बरमहौली बेनी
	अजमतगढ़		अम्मा आइमा		अजमतगढ़		अम्मा आइमा
802	अजमतगढ़	सुरैना	सुरैना	231	अजमतगढ़	सुरैना	सुरैना
	अजमतगढ़		बलपुर		अजमतगढ़		बलपुर
	अजमतगढ़		मुजार		अजमतगढ़		मुजार
	अजमतगढ़		फत्तेपुर		अजमतगढ़		फत्तेपुर
803	अजमतगढ़	सोहराभार मु0बरडीहा	सोहराभार मु0बरडीहा	232	अजमतगढ़	सोहराभार मु0बरडीहा	सोहराभार मु0बरडीहा
	अजमतगढ़		सोहराभार मु0काँखभार		अजमतगढ़		सोहराभार मु0काँखभार
	अजमतगढ़		सोहराभार मु0लंगड़ी		अजमतगढ़		सोहराभार मु0लंगड़ी
804	अजमतगढ़	बलुआ	बलुआ	233	अजमतगढ़	बलुआ	बलुआ
	अजमतगढ़		पाण्डेपार		अजमतगढ़		पाण्डेपार



1	2	3	4	1	2	3	4
	अजमतगढ़		पिपरी		अजमतगढ़		पिपरी
	अजमतगढ़		सतना		अजमतगढ़		सतना
805	अजमतगढ़	बैरीडाड़	बैरीडाड़	234	अजमतगढ़	बैरीडाड़	बैरीडाड़
	अजमतगढ़		जमीन बभनौली		अजमतगढ़		जमीन बभनौली
	अजमतगढ़		परानपुर		अजमतगढ़		परानपुर
	अजमतगढ़		बभनौली		अजमतगढ़		बभनौली
806	अजमतगढ़	मुहम्मदपुर	मुहम्मदपुर	235	अजमतगढ़	मुहम्मदपुर	मुहम्मदपुर
	अजमतगढ़		मिलजुमला कोड़ा		अजमतगढ़		मिलजुमला कोड़ा
807	अजमतगढ़	तरौका	तरौका	236	अजमतगढ़	तरौका	तरौका
808	अजमतगढ़	डिघवनिया-काजी	डिघवनियाकाजी	237	अजमतगढ़	डिघवनिया-काजी	डिघवनियाकाजी
	अजमतगढ़		दलपतपुर		अजमतगढ़		दलपतपुर
809	अजमतगढ़	चौकोखुर्द	चौकोखुर्द	238	अजमतगढ़	चौकोखुर्द	चौकोखुर्द
	अजमतगढ़		केशवपुर(गैर आबाद)		अजमतगढ़		केशवपुर(गैर आबाद)
810	अजमतगढ़	चौकोबुजुर्ग	चौकोबुजुर्ग	239	अजमतगढ़	चौकोबुजुर्ग	चौकोबुजुर्ग
	अजमतगढ़		उदका		अजमतगढ़		उदका
	अजमतगढ़		गैंड़ापुर		अजमतगढ़		गैंड़ापुर
	अजमतगढ़		मिटहा		अजमतगढ़		मिटहा
811	अजमतगढ़	कोड़ा	कोड़ा	240	अजमतगढ़	कोड़ा	कोड़ा
	अजमतगढ़		महरौली		अजमतगढ़		महरौली
	अजमतगढ़		जगदीशपुर		अजमतगढ़		जगदीशपुर
	अजमतगढ़		बालीपुर		अजमतगढ़		बालीपुर
	अजमतगढ़		विशुनपुर		अजमतगढ़		विशुनपुर
812	अजमतगढ़	लाटघाट	लाटघाट	241	अजमतगढ़	लाटघाट	लाटघाट
813	अजमतगढ़	मिश्रपुर	मिश्रपुर	242	अजमतगढ़	मिश्रपुर	मिश्रपुर
814	अजमतगढ़	मझौवा ता0मुहम्मदपुर	मझौवा ता0मुहम्मदपुर	243	अजमतगढ़	मझौवा ता0मुहम्मदपुर	मझौवा ता0मुहम्मदपुर
	अजमतगढ़		लखमी रोहुवार		अजमतगढ़		लखमी रोहुवार
815	अजमतगढ़	मोचीपुर	मोचीपुर	244	अजमतगढ़	मोचीपुर	मोचीपुर
	अजमतगढ़		चकरौजा		अजमतगढ़		चकरौजा
	अजमतगढ़		चकशाहदौलत		अजमतगढ़		चकशाहदौलत
	अजमतगढ़		केशवपुर		अजमतगढ़		केशवपुर

1	2	3	4	1	2	3	4
	अजमतगढ़		जमीन जोकहरा (गैर आबाद)		अजमतगढ़		जमीन जोकहरा (गैर आबाद)
816	अजमतगढ़	खॉड़	खॉड़	245	अजमतगढ़	खॉड़	खॉड़
817	अजमतगढ़	लुचुई	लुचुई	246	अजमतगढ़	लुचुई	लुचुई
	अजमतगढ़		ब्रम्हपुर		अजमतगढ़		ब्रम्हपुर
	अजमतगढ़		सत्तर		अजमतगढ़		सत्तर
818	अजमतगढ़	जमसर	जमसर	247	अजमतगढ़	जमसर	जमसर
	अजमतगढ़		महादेवा		अजमतगढ़		महादेवा
	अजमतगढ़		कन्जहर		अजमतगढ़		कन्जहर
	अजमतगढ़		रसूलपुर उर्फ नरईपुर		अजमतगढ़		रसूलपुर उर्फ नरईपुर
	अजमतगढ़		मिसिरपुर		अजमतगढ़		मिसिरपुर
819	अजमतगढ़	कॉखभार	कॉखभार	248	अजमतगढ़	कॉखभार	कॉखभार
	अजमतगढ़		विपनपुर		अजमतगढ़		विपनपुर
	अजमतगढ़		पिपरही		अजमतगढ़		पिपरही
	अजमतगढ़		जियापट्टी माफी		अजमतगढ़		जियापट्टी माफी
	अजमतगढ़		जियापट्टी अदाई		अजमतगढ़		जियापट्टी अदाई
	अजमतगढ़		दादरा		अजमतगढ़		दादरा
820	अजमतगढ़	टेकनपुर	टेकनपुर	249	अजमतगढ़	टेकनपुर	टेकनपुर
	अजमतगढ़		बरामदपुर		अजमतगढ़		बरामदपुर
	अजमतगढ़		सहसपुर		अजमतगढ़		सहसपुर
	अजमतगढ़		छपिया		अजमतगढ़		छपिया
821	अजमतगढ़	दाममहुला	दाममहुला	250	अजमतगढ़	दाममहुला	दाममहुला
	अजमतगढ़		सोनराडीह		अजमतगढ़		सोनराडीह
822	अजमतगढ़	बनकटिया	बनकटिया	251	अजमतगढ़	बनकटिया	बनकटिया
823	अजमतगढ़	महुला	महुला	252	अजमतगढ़	महुला	महुला
	अजमतगढ़		देवारा महुला (गैर आबाद)		अजमतगढ़		देवारा महुला (गैर आबाद)

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/485/2015-4/143 (आजमगढ़)/2014, दिनांक 9 मार्च, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,  
किंजल सिंह,  
निदेशक,  
पंचायती राज, उ० प्र०।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 448 राजपत्र-2020-(985)-599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 34 सा० पंचायती राज-2020-(986)-132 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।